

CIN: U45202HR2019PLC080514 SAR TELEVENTURE LIMITED

Formerly Known as Sar Televenture Pvt. Ltd. Reg Off.: Plot No. 346 A, 2nd Floor, Udvog Vihar.

Phase-4, Gurugram-122016 Haryana

Contact: +91-8587050050

Email Id: info@sarteleventure.com

November 28, 2023

The Manager, Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051

Symbol: NSE: SARTELE

Re: ISIN: INEOPUC01020

Dear Sir/Madam.

Subject: Submission of Copies of Publication to Stock Exchange, published pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the Provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith extracts of Un-audited Financial Results both Standalone & Consolidated for the half year ended September 30, 2023 adopted in Board Meeting held on 27th November, 2023 published in one English and Hindi Newspaper on 28th November, 2023.

Kindly acknowledge the receipt and take it on record.

You are requested to take the above information on records.

Thanking You Yours Faithfully

Abhishek Jain

sent For SAR Televenture Limited

Digitally signed ABHISH by ABHISHEK EK JAIN Date: 2023.11,28

13:17:27 +05'30'

Company Secretary & Compliance Officer

Website: www.sarteleventure.com Corporate Office: B-16, First Floor, Sector-2, Noida-201301, UP

Prez Xi heads to Shanghai to boost business confidence

hinese President Xi Jinping Cis expected to make his first visit to Sĥanghai - the communist giant's commercial hub on Tuesday, days after his highprofile visit to the US where he promised to "tear down barriers" amidst dwindling foreign

the powerful Politburo meeting of the ruling Communist Party on Monday to review guidelines on policies and measures for promoting high-quality development in the country, will visit Shanghai on Tuesday, his first to the commercial hub, the Hong Kong-based South China Morning Post reported. With a population of more than 25 million and contributing nearly four per cent of China's economic output, Shanghai is home to some of the biggest foreign investments in the country, including Tesla, General Motors, Walt Disney and the 10-year-old Shanghai Free-Trade Zone (FTZ), a test-

cial announcement of Xi's visit to the city which was hit hard by a harsh two-month-long COVID-19 lockdown in 2022 during which its population was confined to their dwellings under Xi's 'zero COVID' policv. The lockdown was enforced after the city was hit hard by the Omicron variant of COVID-19

sparked speculation of a subtle shift in US-China power



ing sagging business confidence in China leading to

shifting of supply chains.

During his trip

a ceasefire in Myanmar

a cease-fire in Myanmar after a coalition of ethnic fighters seized several crossings along Myanmar's border in the past month. However, China will continue live-firing drills on its side of the frontier aimed at "testing the mobility, border control abilities and firepower capabilities of the military units so that the People's Liberation Army is ready for any emergency", the army newspaper PLA Daily said on Sunday. Myanmar heavily relies on

trade with China, especially for importing manufactured goods and exporting agricultural products. Unrest in Myanmar's border region has been a constant irritant to China, which nevertheless backed the military leaders who seized power in the Southeast Asian nation in 2021 from an elected government. Yet China is highly wary of conflicts spilling over the shared border that is already rife with drug trafficking and people smuggling. Cybercrime targeting Chinese victims has become a major concern, and China has pushed hard to eliminate the groups based in Myanmar and other countries and to send the perpetrators back to China for prosecution.

China calls for Imran sent to 14-day judicial remand in corruption case

APakistani accountability Court on Monday sent Imran Khan on a 14-day judicial remand in a corruption case, rejecting the request of the country's anti-graft body for extending the jailed former prime minister's physical remand. Judge Muhammad Bashir of the Islamabad Accountability Court presided over the hearing of the Al-Qadir Trust corruption case held at the Adiala jail in Rawalpindi, where Khan is currently jailed, The Express

Tribune newspaper reported. The 71-year-old Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party chief has been incarcerated in the high-security jail in Rawalpindi since September 26 in various cases.

Khan, the primary accused and his wife Bushra Bibi, 49, were present during the hearing held at the high-security jail. Khan's sisters, Aleema Khanum and Noreen Khanum, were also present during the hearing, the report said. Judge Bashir rejected the National Accountability Bureau's (NAB) request for extending the former premier's physical remand in the Al-Qadir Trust corruption case. Instead, he sent the PTI chief on a 14-day judicial remand,

according to the report.

On Sunday, the former cricketer-turned-politician was interrogated for over two hours in the Adiala jail by a NAB team in the case, a senior official of the apex anti-graft watchdog told the Dawn newspaper. Officials from the accountability bureau have been visiting the Adiala Jail since November 15 to investigate Khan's role in the case.

The Al-Qadir Trust case is about the settlement of 190 million pounds, about Rs 50 billion, which the UK's National Crime Agency sent to Pakistan after recovering the amount from a Pakistani property tycoon. Khan, being the prime minister then, instead of depositing in the national treasury, allowed the businessman to use the amount to partly settle a fine of about Rs 450 billion imposed by the Supreme Court some

ECP says ex-PM not a 'prisoner of conscience' including [the] cipher case."

The term "prisoner of conscience" refers to a person

election commission has said that former prime minister Imran Khan is not a "prisoner of conscience" and he is jailed because he is an accused in various cases, including for the misuse of a diplomatic The cable. Election Commission of Pakistan (ECP) made the statement in response to Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party's remarks in its 24-point Charter of Demand ahead of general elections in the country on February 8.

The PTI in the charter sent to the ECP on November 6 by its Secretary General Omar Ayub Khan described 71-year-old Khan, also Chairman of the party, as a 'prisoner of conscience'.

It also said the party was being victimised and persecuted as a political entity. The ECP, however, dismissed the charge and said that "it has no role" in this alleged victimisation, The Express Tribune newspaper reported. The ECP in its response to the charter on November 22 said: "Former PM and Chairman Imran Khan is in jail in different cases

The tycoon, in return, allegedly gifted about 57 acres of land to a trust set up by Khan and Bushra Bibi to establish the Al-Qadir University in the Sohawa area of the Jhelum dis-

response to PTI's claim that its leaders were coerced into giving interviews and statements against the party and parting ways with it. The polls oversight authority clarified that it could not refrain any political leader from joining or leaving any party. On the PTI's claim that it was not getting a level-playing field, the ECP said it had already issued directions to all caretaker governments for providing a level-playing field to all. When the PTI pointed out that the general

elections were not taking place

within the constitutionally

stipulated period of 90 days, the ECP said the issue had

been deliberated by the

Supreme Court.

who has been put in prison for holding political or religious

views that are not tolerated in

the State he/she lives in. The

cricketer-turned-politician has

been incarcerated in the high-

security Adiala jail in

Rawalpindi since September

"no-role" statement in

The ECP reiterated the

26 in various cases.

trict of Punjab. The notice

served to the accused says that the anti-corruption body took cognisance of the commission of offences of corruption and corrupt practices as defined under the NAB laws.

INTEGRATED INDUSTRIES LIMITED (Formerly known as Integrated Technologies Limited) CIN-L10719DL1995PLC277176

Registered Office: 288, Basement, AGCR Enclave Delhi - 110092, India. Corporate Office: B-16, Second Floor, Sector-2, Noida 201301, India. E-mall: info@integratedindustries.in Website: www.integratedindustries.in Mobile: +91 9811060171 Phone: 011-45511351 Fax: 011-45511351

NOTICE OF 02/2023-24 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 02/2023-24 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING of the Members of Integrated Industries Limited formerly known as Integrated echnologies Limited ('Company') will be held on Wednesday, December 20, 2023 a 12.00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') vithout the physical presence of the Members at the EGM, to transact the business as se out in the EGM Notice. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

n compliance with the Circulars, EGM Notice has been sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and ransfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing of EGM Notice to al members has been completed on 27th November 2023. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.integratedindustries.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of Nationa Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering / updating email address, mobile number and bank account

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follogous the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at EGM as provided in the EGM Notice. Members who have not registered their email ids, are requested to register the same for receiving all communications including Notices etc. from the Compan

lectronically as per process mentioned below: Members holding Equity Shares of the Company in physical mode are requested to provide a duly signed Form ISR-1 along with supporting documents to the Company Registrar and Share Transfer Agent-Skyline Financial Services Private Limited, either at their office at Skyline Financial Services Private Limited, D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 011-40450193-97; or by e-mail at admin@skylinerta.com. The said form is available on the website of the Company at

www.integratedindustries.in Members holding Equity Shares of the Company in dematerialised form are requested to register / update their email address, mobile number and bank account details with

their relevant depositories through their depositary participants

Instructions for remote E-voting and E-voting during EGM ursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('Listing Regulations'), Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (before the EGM) and e-Voting facility (at the EGM), on all the resolutions set forth in EGM Notice. The facility of casting votes wil be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the EGM will be made available to those Members who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by emote e-Voting prior to the EGM may also attend/ participate in the EGM through /C/OAVM but shall not be eligible to vote at the EGM. All the Members are informed that:

The business as set forth in the EGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.

The voting rights of member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, December 13. 2023. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, December 13, 2023 only shall be entitled to vote through remote e

Voting/e-Voting at the EGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending the notice of the EGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, December 13, 2023, may obtain the User ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or info@skylinerta.com by mentioning their

Folio No./DP ID and Client ID. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting the votes The remote e-Voting period commences at 09:00 A.M. (IST) on Sunday, December 17, 2023 and ends at 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, December 19, 2023. The remote e Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a

resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the EGM.

The Members will be provided with the facility for e-Voting at the EGM and those Members participating at the EGM & who have not already cast their vote by remote e

Voting before the EGM, will be eligible to vote at the EGM. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC/ OAVM, but shall not be eligible to vote

Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the EGM and instructions for attending the EGM through VC/OAVM is being provided in the EGM Notice and also available on the Company's website at www.integratedindustries.ir

and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

The Board of Directors has appointed Ms. Loveleen Gupta (FCS No. 5287), Practising Company Secretary as 'Scrutinizer' to scrutinize the process of e-voting during the EGM and remote e-voting held before the EGM in a fair and transparen The Results shall be declared within two working days of the conclusion of the EGM

and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company at www.apmfinvest.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited at www.bseindia.com. For Integrated Industries Limite

(Formerly known as Integrated Technologies Ltd

For SAR Televenture Limited (Rahul Sahdev

enture Private Limited

(Rahul Sahdev)

Managing Director

(Formerly Known as SAR Televenture Private Limited)

Managing Director

Tehran (AP): Iran's navy on Monday added a destroyer capable of launching cruise missiles to its Caspian Sea fleet, state media reported. The 1,400-ton Deilaman destroyer, named for a town in north of Iran, is 95 metres (312 feet) long and 11 metres (36 feet) wide and is able to launch torpedoes while travelling at 30 knots (56 kph, 35 mph), the state-owned IRNA news agency said.

Iran adds warship

to Caspian fleet

Deilaman can detect more than 100 targets, including vessels, drones, helicopters submarines and aircraft, simultaneously, the report said During a ceremony marking the inauguration of Deilaman, Maj. Gen. Mohammad Hossein Bagheri, chief of the Armed Forces General Staff called the Caspian a "sea of peace and friendship" and said Iran's naval power there will serve "peace, security of commercial fleets, confronting terrorists and probable incidents in the future." This is the sixth warship Iran has commissioned in the Caspian Sea, the largest inland body of water in the world, shared by Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, and Iran.

lmost half a million people

Ahave been left without

power and one person was

killed after a storm in the

Black Sea area flooded roads,

ripped up trees and took down

power lines in Crimea, Russian

ern Russia and sent waves

flooding into the beach resort

of Sochi, blew the roof off a

five-story building off in Anapa

and damaged homes and

schools in Kuban, the state

news agency said. It was part of

a weather front that earlier left

one person dead and hun-

dreds of places without electric-

ity amid heavy snowfall and

Kyiv (AP): Grain thunders into

rail cars and trucks zip around

a storage facility in central

Ukraine, a place that growing

numbers of companies turned to

as they struggled to export their

food to people facing hunger

around the world. Now, more of

the grain is getting unloaded from overcrammed silos and

heading to ports on the Black

Sea, set to traverse a fledgling

shipping corridor launched after

Russia pulled out of a UN-bro-

kered agreement this summer that allowed food to flow safely

from Ukraine during the war.

working...we sought how to

accept every ton of products

needed for our partners," facil-

ity general director Roman

Andreikiv said about the end of

the grain deal in July. Ukraine's

new corridor, protected by the

military, has now allowed him to

"It was tight, but we kept

The storm also hit south-

state news agency Tass said.

N Korea restores border guard posts as tensions rise over satellite launch

North Korea is restoring front-line guard posts that it had dismantled during a previous period of inter-Korean rapprochement, South Korea's military said Monday, after animosities spiked between the rivals over the North's recent spy satellite launch. The two Koreas previously dismantled or disarmed 11 of their guard posts inside their heavily fortified border, called the Demilitarised Zone, under a 2018 deal meant to ease front-line military confrontations. But the deal is now in danger of being scrapped as both Koreas openly threaten to breach it.

The 2018 agreement required the two Koreas to halt aerial surveillance and live-fire exercises at no-fly and buffer zones that they established along the DMZ, as well as remove some of their frontline guard posts and land mines. The deal left South Korea with 50 board guard posts and North Korea with

Half a million left without power

in Crimea after Black Sea storm

and Moldova on Sunday.

The storm prompted sev-

eral Crimean regions to declare

a state of emergency after it

became the strongest recorded

in the past 16 years with wind

speeds reaching 144 kph (almost 90 mph), Tatyana

Lyubetskaya, a Russia-installed

official at the Crimean environ-

mental monitoring depart-

ment, told Tass. The govern-

ment in Crimea, which Russia

annexed from Ukraine in 2014.

told people to stay at home on

Monday and closed govern-

ment offices including schools

and hospitals as strong winds

are still expected on Monday.

The head of one Crimean

region, Natalia Pisareva, said

Ukraine has new way to get its grain to

world despite Russia's Black Sea threat

"free up warehouse space and

are streaming toward Ukraine's

Black Sea ports and heading out

loaded with grain, metals and

other cargo despite the threat of

attack and floating explosive

mines. It's giving a boost to Ukraine's agriculture-dependent

economy and bringing back a

key source of wheat, corn, bar-

lev, sunflower oil and other

affordable food products for

parts of Africa, the Middle East

and Asia where local prices

have risen and food insecurity

is growing. "We are seeing

renewed confidence among

commercial operators keen to

take Ukrainian grain cargoes,"

said Munro Anderson, head of

operations for Vessel Protect,

which assesses war risks at sea

and provides insurance with

backing from Lloyd's, whose

Growing numbers of ships

increase activity".

150. After North Korea claimed to place its first military spy satellite into orbit on Nov 21, South Korea said it would partially suspend the deal and resume aerial surveillance along the DMZ in response. South Korea said its response was "a minimum defensive measure" because the launch showed the North's intentions to strengthen its monitoring of the South and improve its missile technology. North Korea immediately slammed South Korea's decision, saying it would deploy powerful weapons at the border in a tit-for-tat measure. The North said it also won't abide by the 2018 deal any longer.

South Korea's Defence Ministry said in a statement Monday that it detected North Korea building guard posts at border sites where its dismantled guard posts once stood, and that North Korea deployed troops and heavy weapons there. The ministry distributed to media outlets photos of North Korean sol-

area of western Crimea had lost

water supply as well as central

heating because pumping sta-

tions had lost power. There

were also reports of a problem

with a gas pipeline in Saky,

Sevastopol, around 800 exotic

fish and animals died after the

room they were in was flood-

ed, the Crimea 24 TV channel

reported. In Russia, the

Caspian Pipeline Consortium

stopped crude oil loading at the Novorossiysk port Monday due

to the "extremely unfavourable

weather conditions", including

winds of up to about 86 kph

and waves of up to 8 metres (26

members make up the world's

largest insurance marketplace.

Ihor Osmachko, general direc-

tor of Agroprosperis Group,

one of Ukraine's biggest agricul-

tural producers and exporters,

says he's feeling "more optimistic

pletely unclear how to survive, he said. Since the company's first

vessel departed in mid-

September, it says it has shipped

more than 300,000 metric tons

of grain to Egypt, Spain, China, Bangladesh, the Netherlands,

Tunisia and Turkey. After end-

ing the agreement brokered by

the UN and Turkey, Russia has

attacked Ukraine's Black Sea

ports — a vital connection to

global trade — and grain infra-

structure, destroying enough

ernment said.

"At that time, it was com-

than two months ago."

In an aquarium in

western Crimea.

feet) in height.

diers building a guard post and moving a suspected recoilless rifle to a newly built trench. South Korean President Yoon Suk Yeol ordered the military to keep a close watch on the North and maintain a firm readiness, according to his office. The South Korean Defence Ministry later said it's ready to "promptly and strongly punish" North Korea over any provocation that it launches. South Korea, the United States and others strongly condemned the North's satellite launch, which they viewed as a provocation that threatens regional peace. United Nations Security Council resolutions ban any satellite launches by North Korea because the world body regards them as covers for testing its longrange missile technology North Korea says it has sover eign rights to launch spy satellites to cope with what it says are escalating US-led military

On Monday, Kim Son Gyong, a senior North Korean Foreign Ministry official called the US and others' condemnation of the satellite launch "a typical expression of the most hideous and brazenfaced violation of sovereignty that denies the justification of the existence" of North Korea.

SAR TELEVENTURE LIMITED (Formerly SAR Televenture Private Limited) CIN: U45202HR2019PLC080514

Regd. Off.: Plot No. 346 A, 2nd Floor, Udyog V:har, Phase-4, Gurugram-122016 Haryana Contact: +91-8587050050, Email: info@sarteleventure.com EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30.09.2023

(Rs. in Lacs) 6 Months Ended on Year Ended **Particulars** 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2022 320.91 Total Income from Operations 2619.97 3251.63 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 419.03 376.26 427.32 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional 419.03 20.03 376.26 427.32 2.73 and/or extraordinary Items#) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional 405.88 13.98 343.34 388.36 3.71 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other 343.34 3./1 Comprehensive Income (after tax)) 405.88 13.98 388.36 Equity Share capital 210 4.18 65.29 4.18 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 3344.48 11.89 1.11 11.89 1.11 Earning per Share (Tace Value of Rs. 10/- each)(not annualised) 53.21 5.09 53.21 91.08 6.7

NOTES:

The above is an extract of the detailed format of half year financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half year financial Results are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website www.sarteleventure.com

The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting held on 27.11.2023 (Formerly Known as SAR Tele

Place: Haryana

SAR TELEVENTURE LIMITED

CIN: U45202HR2019PLC080514 Regd. Off.: Plot No. 346 A, 2nd Floor, Udyog Vihar, Phase-4, Gurugram-122016 Haryana

(Formerly SAR Televenture Private Limited)

Contact: +91-8587050050, Email: info@sarteleventure.com

					(F	ts. in Lacs
SI.	Particulars	6 Months Ended on			Year Ended	
No.		30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operat ons	321.94	320.91	324.85	645.77	475.35
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items#)	54.23	20.03	97.7	117.73	2.73
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional anc/or extraordinary Items#)	54.23	20.03	97.7	117.73	2.73
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional anc/or extraordinary Items#)	41.08	13.98	64.8	78.78	3.71
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	41.08	13.98	64.8	78.78	3.71
6	Equity Share capital	210	4.18	65.29	65.29	4.18
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2673.14	11.89	823.13	823.13	11.89
8	Earning per Share (face Value of Rs. 10/- each)(not annualised)					
	1. Basic	0.52	6.7	10.04	18.47	1.78
	2. Diluted	0.52	6.7	10.04	18.47	1.78

The above is an extract of the detailed format of half year financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half year financial Results are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website www.sarteleventure.com The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting held on 27.11.2023

Place: Haryana

food to feed over 1 million people for a year, the UK gov-Date: 27.11.2023

Dated: 28.11.2023 Place: Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

NEW DELHI | TUESDAY | NOVEMBER 28, 2023

investments in the country.

Xi, 70, who presided over ing ground for China's economic reforms.

for about eight months. Since, 2021, the world's

second-largest economy has been hit hard by recurring and prolonged lockdowns of various cities which exasperated China's economic woes, denting the business confidence including its once-booming perty sector.

Xi's first visit to Shanghai where he was previously the CPC's boss comes close to his successful visit to the US this month where he had a "strategic and historic" summit with US President Joe Biden during which the two leaders agreed to tone down their harsh policies and rhetoric against each other.

While their summit

dynamics, Xi in his address to

the APEC CEO summit in San Francisco earlier this month pledged to tear down foreign investment barriers and promised to invite foreign capital with 'heart-warming' measures. "We will strive to tear down the barriers to the flow of innovation factors, deepen reform of the digital economy, and promote free and orderly flow of data in compliance with the law," he said in his speech aimed at ris-

tant at Shanghai financial advisory firm Integrity said.

columnist Wang Xiangwei said.

encourage city officials to pursue more market liberalisation to spur cross-border trade and capital flows via the mainland's gateway city amid mounting worries about China's decoupling from the West, Ding Haifeng, a consul-

'Shanghai's role as an economic locomotive will be further highlighted following the top leader's visit," he told the Post. Observers say China's current economic woes were largely attributed to Xi's emphasis more on security issues denting business confidence. "In the past five years however, security concerns have taken top priority," Post

Last year, in his keynote speech at the 20th Communist Party national congress, Xi spoke of pursuing development as the government's central task but devoted far more time to national security and social stability, Wang wrote in his column in the Post on

Beijing (AP): Beijing called for

नशे के कारोबार में लिप्त ४ छात्र समेत ९ गिरफ्तार

कोकीन, विदेशी गांजा, समुद्री गांजा, चरस तथा एमडीएमए समेत अन्य मादक पदार्थ हुआ बरामद

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो यहां के विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था। गिरफ्तार आरोपियों में चार नोएडा के एक नामी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जबकि पांच विभिन्न जगहों से मादक पदार्थ लाकर इन्हे उपलब्ध कराते है।

पुलिस ने उनके पास से मादक पदार्थ एमडीएमए, कोकीन, विदेशी गांजा, समुद्री गांजा, चरस तथा सफेद रंग का मादक पदार्थ का पाउडर आदि बरामद किया है। पुलिस उपयुक्त जोन प्रथम हरिश चंदर ने बताया कि थाना सेक्टर 126 पुलिस ने बीती रात को एक सूचना के आधार पर एमेटी विश्वविद्यालय के पास से दर्शन जैन



विश्वविद्यालय बीबीए श्रीवास्तव सहित 9 लोगों को एलएलबी, अपूर्ण सक्सेना छात्र गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अमेठी विश्वविद्यालय एमबीए, सागर इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में छात्र एमबीए मादक पदार्थ एमडीएमए, शिलांग का गांजा, समुद्री गांजा, सफेद रंग के

नोएडा। नोएडा पुलिस ने खिवार रात को तीन मादक पदार्थ तस्करों के पास से 72 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पलिस ने यह

नशीले पदार्थ के साथ पांच गिरफ्तार

जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार राठी ने रविवार रात को एक सूचना के आधार पर बीटा-दो थाना क्षेत्र में परी चौक के पास एक दुकान के पास से लाखों रुपए मूल्य का 72 किलो और 300 ग्राम अवैध गांजा तथा गांजा तस्करी में इस्तेमाल एक कार बरामद की। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन मादक पदार्थ तस्करों चांद उर्फ चंद्र, इरशाद तथा राशीद को गिरफ्तार किया गया है। पछताछ के दौरान पलिस को पता चला कि आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजा खरीद कर लाते थे और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेचते थे। प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य मामले में दादरी थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों से सुभाष तथा रविंद्र सिंह नामक दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से साढे तीन

किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया

पदार्थ आदि बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे लोग विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से

पाउच में पैक किया हुआ मादक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढने हैं। डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान पलिस को पता चला है कि

चारों छात्र अन्य आरोपियों के साथ मिलकर देश,विदेश से गांजा, चरस, कोकीन, तथा एमडीएमए और अन्य मादक पदार्थ मंगवाते हैं।

ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र.छात्राओं से संपर्क करते हैं तथा उन्हें मादक पदार्थ सप्लाई करते हैं। उन्होंने बताया गिरफ्तार आरोपी काफी दिनों से इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे।

डीसीपी ने बताया कि इनके पास से एक कार और दो दो पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। इनसे गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर कुछ अन्य लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गोरख धंधे में छात्र-छात्राओं के अलावा यहां के विभिन्न विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के वार्डन और अध्यापक



संविधान दिवस पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर गिरफ्तार

नोएडा। सोशल मीडिया पर कथित रूप से संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को संविधान दिवस पर यह कथित टिप्पणी की थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, स्थानीय जारचा थाने में आरोपी के खिलाफ रवि कुमार नामक व्यक्ति ने रविवार रात को लिखित में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की पहचान भानु उर्फ जएश के रूप में हुई जो बिसहड़ा गांव का निवासी है। आरोपी को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है जारचा के थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी बेरोजगार है।

गढ़ में 25 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आख्था की डुबकी

गाजियाबाद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गढ्मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में आयोजित मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पूर्वजों को दीपदान कर गंगा मे अस्था की डबकी लगाई। गढमक्रेश्वर खादर क्षेत्र में लगने वाले ऐतिहासिक व पौराणिक कार्तिक पर्णिमा गंगा मेले में दीपदान पर्व पर 25 लाख श्रद्धालुओं ने पड़ाव डालकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सडकों पर वाहनों की संख्या बढने के कारण लाखों श्रद्धालओं को गंगा मेले तक पैदल सफर करना पड़ा। मेले का मुख्य स्नान आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था। मेला क्षेत्र समेत गंगानगरी ब्रजघाट के तट पर रविवार की शाम तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके थे। दीपदान पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमडने से मेला मार्ग, गढ चौपला समेत अन्य संपर्क मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से गंगा तट तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, प्रमोद नागर, प्रशासनिक अधिकारी देवीदास समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने दीपदान पर्व के मद्देनजर मेला क्षेत्र में मुख्य स्नानघाट समेत अन्य घाटों और बाजारों में लगातार निरीक्षण किया। रेखा नागर ने अधिकारियों व कर्मचारियों को गंगा में लगाई गई बैरिकेडिंग समेत अन्य सुविधाओं पर लगातार नजर बनाए रखने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।

दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार

नोएडा। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी (केजीएमय्) द्वारा आयोजित की गई स्टाफ नर्सिंग की परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक व्यक्ति को थाना सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 58 के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम नितेश है। उन्होंने बताया कि नितेश, जालान सिंह नामक व्यक्ति की जगह परीक्षा दे रहा था। उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्सिंग की परीक्षा कल सेक्टर 62 स्थित इंडस वैली स्कुल में चल रही थी। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक ने नितेश को दूसरे की जगह पेपर देने के आरोप में पकड़कर सेक्टर 58 पुलिस के हवाले किया।

प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन

गाजियाबाद। सूर्य नगर गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के प्रकाशपर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन पाँच पियारों की अगुवाई में तथा श्री गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया में सूर्यनगर, रामपुरी, ब्रिजविहार, चन्द्रनगर, रामप्रस्थ होते हए वापिस सर्य नगर गरुद्वारा पर समाप्त होगा। इस मौके पर प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रनबीर सिंह भाटिया ने अल्पसंख्यक आयोग यूपी के पूर्व सदस्य सरदार एस पी सिंह, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी, पार्षद विनय चौधरी, शशि खेमका, जय भगवान अग्रवाल, अनमोल खन्ना, आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरप्रीत सिंह जग्गी, लिंक रोड थाना प्रभारी प्रीति सिंह को सरोपा भेंट किया।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला, सर्विस हथियार लूटा

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्वतः इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

सीआईएन-एल10719डीएल1995पीएलसी277176 पंजीकृत कार्यालय : 288, बेसमेंट, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली—110092, मारत

कार्पोरेट कार्यालय : बी-16, द्वितीय तल, सेक्टर-2, नोएडा-201301, भारत

ई—मेल : info@integratedindustries.in वेबसाइट : www.integratedindustries.in मोबाइर +91 9811060171 फोन : 011-45511351 फैक्स : 011-45511351

एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वतः इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज

लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध ("कम्पनी") के सदस्यों की 02 / 2023-24 अ-साधारण सामान्य बैठव

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो

नुष्पार, 20 रिरोज्य, 2023 को नार्वस्त 12.00 बेक (जिङ्ग्यिय) योज्य संभ्यान्तिम् ज्ञान्यसम् ज्ञान्यसम् विज्ञुज्ञत मीन्स ("वीसी/जोएवीएम") के माध्यम से हुंजीएम के माध्यम से हंजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/जोएवीएम के माध्यम से इंजीएम में उपस्थित सदस्यों की गणना अधिनियम की घारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

सर्कुलर्स के अनुपालन में, इंजीएम सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा युकी है, जिनकी ईं-मेल आईंडी'ज कम्पनी/रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी

पार्टिसिपेंट ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को ई-मेल भेजने का कार्य 27 नवस्य 2023 को पूरा किया जा चुका है। उपरोक्त दस्सावेज कम्पनी की वेबसाइट

www.integratedindustries.in, स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट

जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी'ज पहले से कम्पनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकत हैं. वे ईजीए

की सूचना में उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग हेतु अनुदेशों का

पालन करें। जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं करवाई हैं, उनसे अनुरोध है कि उसका पंजीकरण, कम्पनी से सूचनाओं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रा

जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर मौतिक रूप में घारण किए हुए हैं, उनसे अनुरोध है

कि एक विधिवत इस्ताक्षरित प्रपत्र आईएसआर-1, समर्थन दस्तावेजों के साथ कम्पनी

उनके कार्यालय स्कार्डलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153 /ए प्रथम तल ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज⁻1, नई दिल्ली-110020, फोन : 011-40450193-197 ; अथवा

र्ड मेल द्वारा admin@skylinerta.com पर उपलब्ध कराएं। उक्त प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट

जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर अभौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, उनसे अनुरोध

उक्त अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014

समय समय पर संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)

विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को ईजीएम

की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर उनका वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने हेतु सुविधा,

(ईजीएम में) उपलब्ध कराई जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई

जाएगी। ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो वीसी/ओएवीएग

सविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं तथा प्रस्तावों पर अपना बोट रिमोट ई-बोटिंग के गाध्यम से नहीं डाला है। जो सदस्य ईजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से

डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में तपस्थित हो सकते हैं ∕माग ले

सकते हैं परंतु ईजीएम में बोट डालने हेतु ग्राह्म नहीं होंगे। समी सदस्यों को सूचित किया जाता

ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई—वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधन

2. सदस्य(यों) के वोटिंग अधिकार कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम

कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी

स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा।

. कोई ब्यक्ति, जो ईजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और

कम्पाी का सदस्य वनाता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 को शेयरी का धारक है, वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी के उल्लेख के साथ

एक ई-मेल evoting@nsdl.co.in अथवा info@skylinerta.com पर मेजकर यूजर आईडी और

पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल

के साथ पंजीकृत है, तो अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 17 दिसम्बर, 2023 को पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी तथा मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तद्परांत

एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी

सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन

. इस अवधि के दौरान, भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य ईजीएम से पहर

सदस्यों को ईजीएम में ई-बोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा ईजीएम में उपस्थि

जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं ढाला है. वे ईजीएम

जो सदस्य ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु

. रिमोट ई-वोटिंग ईजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया तथा विधि और वीसी/ओएवीएग

के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने संबंधी अनुदेश ईजीएम की सूचना में दिए जा रहे है

तथा कम्पनी की वेबसाइट www.integratedindustries.in और एनएसडीएल की वेबसाइट

a. किसी संदेह की स्थिति में. आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध

शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू ज) देखें अथवा शेयरधारकों के लिए यूजर

मैनअल देखें अथवा टोलफ्री नंबर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल को अनुरोध मेजें, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग

 निदेशक मंडल ने सुश्री लवलीन गुप्ता (एफसीएस नंबर 5287). अभ्यासरत कम्पनी सचिव, कं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के निष्पक्ष

परिणाम, ईजीएम के समापन के दो कार्य दिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे और उनको

एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा बीएसर्ड

ं सुविधा के माध्यम से (ईजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा के

रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग हेत् अनुदेश

है कि वे अपना ई मेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत/अधतन करवाएं।

ई—मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता आदेश पंजीकृत/अद्यतन करने की विधि

करने के लिए, नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करवा लें :-

www.integratedindustries.in पर उपलब्ध है |

द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।

लिए कर सकता है।

की अनुमति नहीं होगी।

में वोट डालने हेतु ग्राह्म होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाल सकते हैं।

ईजीएम में पुनः वोट डालने हेत् ग्राह्म नहीं होंगे।

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

संबंधी सभी शिकायतों का निवारण करेंगे।

और पारदर्शी संवीक्षण के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.integral

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गाजियाबाद में ग्रामीणों ने नोएडा पुलिस के कुछ कर्मियों पर कथित तौर पर हमला किया तथा उनसे एक सर्विस हथियार लट लिया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हमले में नोएडा सेक्टर 63 थाने के दो पुलिस कर्मी घायल हो गए, जो रविवार को जांच के सिलसिले में गाजियाबाद के

मसौता गांव गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि हमला एक निजी कार में सवार पुलिस टीम और कुछ स्थानीय लोगों के बीच पुलिया पर वाहन को गुजरने देने को लेकर बहस के बाद हुआ। गाजियाबाद के मसुरी के सहायक पुलिस आयुक्त नरेश कुमार ने कहा, नोएडा पुलिस की टीम नोएडा में दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के मसौता गांव आई थी।

लाउडस्पीकर बजाने वालीं के खिलाफ विशेष अभियान

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में स्थित सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों पर लाउस्पीकर पुलिस द्वारा चेक किया गया, जिसमें 47 लाउडस्पीकर की ध्विन की आवाज को मानक के अनरूप करवाया गया तथा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए। इस मामले में 17 लोगों को नोटिस दिया गयाए एवं 21 लोगों के विरुद्ध 107/116 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत विशेष अभियान चलाया गया।

नोएडा में रईसजादों ने की स्टंटबाजी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में स्टंटबाजो के जला, मामला दर्ज खिलाफ पुलिस लगातार कडी कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही मामला रविवार रात देखने को मिला, जब कुछ युवक गाडियों में सवार होकर स्टंटबाजी कर रहे थे और एक गाड़ी से कुछ युवक पैसे भी उड़ा रहे थे। इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी गाडियों को बिसरख थाना क्षेत्र में पकड लिया गया और पांच गाड़ियों को सीज कर दिया गया। रविवार रात को आधा दर्जन गाड़ियां स्टंट बाजी कर

रही थी। दरसअल सेक्टर-37 के पास से यह गाड़ियां निकली। इन गाडियों की खिडिकयों से बाहर युवक निकले हुए थे और स्टंटबाजी कर रहे थे। इसके अलावा एक गाड़ी से एक युवक नोट भी उड़ा रहा था। जब यह गाड़ियां सेक्टर 37 के पास से गुजरी तो किसी व्यक्ति के द्वारा इसका वीडियो बना लिया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो 🛡 प्रलिस ने पांच गाडियों को किया

वायरल होते ही नोएडा की ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने तत्काल इन वाहन चालको के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बिसरख थाना क्षेत्र में इन सभी गाडियों को पकड लिया। इस दौरान वीडियो में दिख रही पांच गाड़ियों को सीज कर दिया गया और इन सभी गाड़ियों के करीब 33000 के चालान भी काटे गए।

हुड़दंग मचा रहे युवकों के खिलाफभी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग दिल्ली से अपने दोस्त की बारात में आए हुए थे। इस दौरान यह लोग स्टंट बाजी करने लगे लेकिन नोएडा पुलिस की शख्ती के चलते इन्हें स्टंट बाजी करना भारी पड़ गया। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया कि कुछ युवकों के द्वारा गाड़ियों से स्टंट किया जा रहा था।

23वीं मंजिल से गिरकर आस्था की दूटी थी पांच हाईया

🛡 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मानसिक तनाव के चलते की थी आत्महत्या

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में 23वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली मेडिकल स्टुडेंट आस्था शर्मा की मौत शॉक व हेमरेज गहरा आघात लगना से हुई थी। बिजनेसमैन के फाउंटेन में इतनी ऊंचाई से गिरकर आस्था के शरीर की पांच हड्डियां टुट गई थीं।

रिपोर्ट के अनुसार. गर्दन, सिर, कूल्हे, कंधे और की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। गाजियाबाद के



उसकी नाक से खून बहा। जैसा घटनास्थल पर पड़े शव की तस्वीरों में भी दिख रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उजागर हुई है। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस में किसी भी तरह कमर की हड्डियां टूटी पाई गई हैं। डॉक्टरों का इंदिरापुरम इलाके में एडवांटेज सोसाइटी हैए जो स्थित घर पर मौजूद मिला है

11वें टॉवर के पास बिजनेसमैन अमित जैन के फाउंटेन में एक युवती का शव पड़ा मिला। उसकी पहचान आस्था शर्मा के रूप में हुई। वो गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफडेंटिस्ट कर रही थी। आस्था 24 नवंबर को अपने फ्रेंड रोहित खन्ना के फ्लैट पर आई थी और उसी शाम को पौने 7 बजे के आसपास उसने 23वीं मंजिल से कदकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि सोसाइटी वालों को आत्महत्या के बारे में अगली सुबह पता चला। पुलिस ने आस्था के परिजनों से बातचीत के बाद दावा किया कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थी और इसकी दवाइयां भी ले रही थी। घटना के पांच दिन पहले से वो मोबाइल भी यूज नहीं कर रही थी। उसका मोबाइल दिल्ली के विकासपरी

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, रानपुर, कोटा।

सर्प साधारण को सूचित किया जाता है कि मुखण्ड संख्या जी-269, श्रीककत 1600 वर्गमीटर, औद्योगिक क्षेत्र एवं मुख सर्क द्वितीय, रानपुर, कोटा का उरतातरण दिनांक 14.11.2018 को रिजरटर्ड किया विलेख, सच्या पत्रों त्यं आयथाक दस्तांवर्गों से जिरंदे प्रीपाईटर्सिंग धर्म मैक्स एक, के.इण्डर्ट्सिंग से मार्टनरिंग फर्म असराम स्वेश्यतिटी फीड्स परमा के खा में दिनांक 15.03.2019 की किया गया। मुखण्ड संख्या की-226, क्षेत्रफल 1548 वर्गमिटर, जीवीगिक के एवं चूढ पार्क दितीय सरण, यानपुर, कोटा का हत्तांतरण का उत्तांतरण निर्माण 5.13.12010 को चितरटर्स विक्रय सिलंध, सण्या पत्रों एं आयथाक दस्तांकों के ज़रीर प्रोपाईटर्सिंग फर्म मैसर्स एम. सी. एवं चूढ्य से पार्टनरिंग फर्म असराम रचेश्यतिटी फीड्स एक्सलपी के खा में दिनांक 13.03.2019 को किया गया। असरमा रचेश्यतिटी कीड्स एक्सलपी, जीरपोरंट कार्य मंत्रात्व में क्रम रच्या AAI-9802 से फंक्शित हैं पत्र प्रसुप्ती फर्म में खुल 11 पार्टनर्स थे। दिनांक 310.5.2020 को वमस्थान रचेश्यतिटी फीड्स एक्सलपी हाय प्रथम क्यांगिट्टी राजरत्यी प्रोपेट के माम्यम से जल कर्म में 11 पार्टनर में से 7 पार्टनर क्रम्या श्रीमधी संवीदा जैन, श्रीमधी विविद्या जैन, श्रीमधी अदिवी जेन, श्रीमधी आपूर्ण जैन श्रीमधी कारपान से मीमधी पुष्प जैन श्री अकित जैन एवं श्रीमधी ने की जिन दिवार हो गर्दे हैं एवं 4 पार्टनर फर्म में क्रमवर, श्री कारतीय जीन, श्री बिक्श जैन, श्री बिक्श जैन, श्री बिक्श जैन,

पूचा जैन जी ब्रीक्ट जैन एवं जी गोंदी पीन क्या जैन रिशाद को नर्दे हैं एवं 4 पार्टनर भी कालत, जी बानविष्य जैन, जी बिक्टर जैर, भी अंक्टर जैन एवं जी गांदित जीन रोच हैं।
का त्रीने (1906 जी—250 पूर्व जी—260) हस्तांतरी पूखायों की कर्म अमरबान स्पेश्वांतरी फीद्रसा एनएवणी जारिये पार्टनमें
ब्राव त्राच्य पत्र, प्रथम सस्तीनेही एनएवणी एपीमेंट विनांक 310.8.2020, सी.ए.प्रणाण पत्र एवं अच्य सस्तांत्रों के आयार एक मूखण्ड
का संतिमान पत्रितंत ने त्रेर के पार्टनर कानत जी कनात्रतीय जैन, भी विकास जैन, अंत अंक्ट्र जेन एवं भी गांदित जैन के प्रथ करने हेंचू (निवंदन) विनांक 05.10.2023 को छिन्या गया है। यहां यह भी विदित्त है कि एक फर्म की एक पार्टनर श्रीमती त्रितंत्रता की नत्र में प्रकार कर जो को गांह है।
भूखण्ड संख्या जी—259 पूर्व जी—260, औठ हो ० एवं फिट्ट पार्टन विद्यांत्र तनपुर, कोटा (राजस्थान) के संविध्यान परिवर्तन
पत्र प्रशास तर तमा के अपने कि अंतर कि प्रथा के प्रथा कि प्रयास के प्रशास के प्रशास के प्रयास के प्रशास के प्रयास के प्रशास के प्रशास के प्रयास के प्रशास के प्रास्त के प्रशास के प्रशास

सार्वजनिक सूचना गरण को सूचित किया जाता है कि सेक्टर—1. नोरडा. उ०प्र०.

8 द्योगिक भूखंड जो उप निबंधक कार्यालय प्रथम, नोएडा की बड़ी सं० 1, जिल्द सं० 22 ष्ठ सं० ३२४ से ३४७, क्र॰ सं॰ ८४० दिनांक २८. नुष्ठ राज 324 राजमा, प्राठ राज ४४६ राजमान २६. ११.१९८० में पंजीकृत है, के मूल आवंटी श्री श्याम लाल बंसल द्वारा निष्पदित पंजीकृत वसीयत दिनांळ 03.02.2023 ळे अनुसार उनके नरणोपरांत उपरोक्त औद्योगिक भूखंड को उनके पुत्र श्री मनोज बंसल के पक्ष में नामांतरित केया जा रहा है ।

स संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है और उसके पास उक्त संपत्ति के मूल आवटी द्वारा दिनांक 03.02.2023 के पश्चारा पारिर कोई अन्य उंतीकत वसीयत है वह वसीयत की सत्यापित प्रति के साथ और यदि कोई अन्य वसीयत न होने पर भी किसी को आपत्ति है तो इस संबंध में . तंबन्धित न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कृपया अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस के अंदर नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक विभाग में प्रस्तुत करें। इस अवधि के पश्चात कथित भूखंड का नामांतरण वसीयतधारक

मनोज बंसल

मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

बिसरख थाना क्षेत्र में सोमवार तडके पुलिस मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबिक उसका दूसरा साथी भागने

(जोन द्वितीय) सुनिति ने बताया कि सोमवार सुबह बिसरख थाना क्षेत्र में पुलिस बदमाशों की तलाश में जांच पाकर बदमाश गोली चलाते हुए आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• बदमाश के खिलाफ लूटपाट सहित १४ आपराधिक मामले हैं दर्ज

कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल से दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पुलिस ने उनका पीछा किया। लेकिन मोटरसाइकिल बरामद हुई है। डीसीपी

भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे एक बदमाश मनोज चतुर्वेदी घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया

चतर्वेदी दिल्ली के सदर बाजार का निवासी है। पलिस ने बताया कि बदमाश का एक साथी मौके से भाग निकला। उन्होंने बताया कि बदमाश के पास से लूटा हुआ एक मोबाइल गोली चला दी। उन्होंने बताया कि फोन, देसी तमचा, घटना में प्रयुक्त हडबडाहट में उनकी मोटरसाइकिल ने बताया कि उक्त बदमाश के गिर गई। पुलिस से खुद को घिरा खिलाफ लटपाट सहित 14

कबाड़ के टाइल्स से बनेंगे फुटपाथ

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

आधुनिक तकनीक के जरिए ग्रेटर नोएडा में सडकों के निर्माण में और पारदर्शिता और गुणवत्ता बढाने के लिए प्राधिकरण ने केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई से हाथ मिलाया है।

्रप्राधिकरण सीआरआरआई के साथ बहुत जल्द करार करने जा रहा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में वेस्ट मैटेरियल से बनी टाइल्स का फुटपाथ बनाने में इस्तेमाल करने की भी तैयारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के समक्ष एसीईओ मेधा रूपम और अन्नपूर्णा गर्ग की मौजूदगी में सीआरआरआई की प्रस्तुतिकरण में इस पर सहमति बन गई है।

सीईओ ने सभी वर्क सर्कल को मॉडल रोड चिह्नित जाएगा। अच्छी सडक ग्रेटर नोएडा की पहचान है।

• ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ ने सीआरआरआई के साथ बैठक कर दी सहमति, देश का बनेगा पहला शहर

रूप में अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण अगले दो सप्ताह में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ करार करने जा रहा है।

करार हो जाने पर केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान ग्रेटर नोएडा में सडकों को ईको फ्रेंडली बनाने, आधनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सडक निर्माण का एस्टीमेट तैयार करने, सड़कों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने समेत कई बिंदुओं पर अपनी कंसल्टेंसी देगा। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में फुटपाथ बनाने के लिए पॉलीथिन व अन्य कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैटेरियल से तैयार पेवर ब्लॉक टाइल्स का भी इस्तेमाल करेगा।

प्राधिकरण संस्थान को वेस्ट मैटेरियल देगा, जिसके एवज में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ग्रेटर नोएडा को सस्ती दरों पर पेवर ब्लॉक टाइल्स उपलब्ध कराएगा। इसका इस्तेमाल ग्रेटर नोएडा में सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाने में किया जाएगा। पेवर ब्लॉक टाइल्स वेस्ट नोएडा प्राधिकरण सीआरआरआई को सलाहकार एजेंसी के अनुकूल होंगी। इसकी दरें कम होने से बचत भी होगी।

सार टेलीवेंचर लिमिटेड (पूर्वतः सार टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड) सीआईएन : यू४५२०२एचआर२०१९पीएलसी०८०५१४

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर ३४६ ए, द्वितीय तल, उद्योग विहार, फेज–४, गुरूग्राम–122016, हरियाणा सम्पर्कः +91-8587050050, ई-मेलः info@sarteleventure.com

30–09–2023 को समाप्त अर्द्ध–वर्ष हेतु, पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

					((રુ. લાહા મે)	
क्र.		६ माह समाप्त			वर्ष समाप्त		
सं.	विवरण	30-0 9-202 3 अलेखापरीक्षित	30-09-2022 અને હાાપરી ક્ષિત	31-03- 202 3 लेखाप रीक्षित	31032023 लेखापरीक्षित	31-03-2022 लेखापरीक्षित	
1	परिचालन रो कुल आय	321.94	320.91	324.85	645.77	475.35	
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	54.23	20.03	97.7	117.73	2.73	
3	अविघ हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों के पश्चात#)	54.23	20.03	97.7	117.73	2.73	
4	अवधि हेतु शुद्ध लाग/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण गर्दो के पश्चात#)	41.08	13.98	64.8	78.78	3.71	
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्यात) तथा अन्य समावेशी आय (कर						
	पश्चात) सम्मिलित है]	41.08	13.98	64.8	78.78	3.71	
6	इक्विटी शेयर पूंजी	210	4.18	65.29	65.29	4.18	
7	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलगपत्र में दर्शाया गया है	2673.14	11.89	823.13	823.13	11.89	
8	प्रति शेयर अर्जन (अंकित भूल्य रू. 10/- प्रत्येक) (वार्षिककृत नहीं)						
	1. मूल	0.52	6.7	10.04	18.47	1.78	
	2. तनुकृत	0.52	67	10.04	18 47	1.78	

नोटस . चगरोक्त विवरण सेवी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अगेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए ग अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का राक्षिप्त विवरण है। अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.nseindia.com पर उपलब्ध है। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.sarteleventure.com पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त परिणामों का सम्यक् पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मडल द्वारा उनकी 27-11-2023 को आयोजित बैडक र सार टेलीवेंचर विमिटे (पूर्वतः सार टेलीवेचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

(पूर्वतः इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) स्थान : हरियाणा

वास्ते इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनांकित : 28-11-2023 स्थान : दिल्ली कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कर वेस्ट मैटेरियल से बनी पेवर ब्लॉक टाइल्स का इस्तेमाल कर फुटपाथ बनाने के निर्देश दिए हैं। अगर फु टपाथ बनाने में पेवर ब्लॉक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ तो ग्रेटर नोएडा ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन

इसे और बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रयासरत है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ईको फ्रे ंडली तथा अधिक गुणवत्तापरक सडकें बनाने के लिए ग्रेटर मैटेरियल से बनेंगी। ऐसे में ये पर्यावरण के लिए भी



इजराइली पोत जब्त करने वालों को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ा

🗕 हूती समर्थित यमन से मिसाइल दागी गईं

भाषा। दुबई

यमन के तट के पास रविवार को इजराइल से जुडे एक टैंकर को जब्त करने के बाद उसे छोड़ने वाले सशस्त्र हमलावरों को अमेरिकी नौसेना ने पकड लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हती-नियंत्रित यमन से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइल अदन की खाडी में टैंकर की सहायता कर रहे एक अमेरिकी युद्धपोत के पास गिरीं। यह हमला ऐसे समय में किया गया, जब इजराइल-हमास युद्ध के बीच पोतों पर हमले जारी हैं। पोत का प्रबंधन करने वाली जोडियाक मैरिटाइम कंपनी ने सोमवार को कहा कि फॉस्फोरिक एसिड ले जा रहे सेंट्रल पार्क पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उसके चालक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं। इनमें फिलीपीन, रूस, तुर्किए और वियतनाम के नागरिक शामिल हैं।

पोप को फेफड़ों की समस्या के

लिए नसों से एंटीबायोटिक्स

वेटिकन सिटी। पोप प्रांसिस को पेकड़ों में

सुजन का उपचार करने के लिए नसों के

माध्यम से एंटीबायोटिक्स दी जा रही है और

उनके कुछ वार्यक्रमों में कटौती वी गई है।

वेटिकन ने यह जानवारी देते हुए कहा कि

उन्हें निमोनिया या बुखार नहीं है। फ्रांसिस

ने रविवार को खुद बताया था कि वह सूजन वी समस्या से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि

इस वजह से वह सेट पीटर स्क्वयर में लोगो

का स्वागत करने के लिए अपने साप्ताहिक

वार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय,

उन्होंने वेटिकन मैदान पर होटल के वैपल से

लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। वेटिकन के

प्रेस कार्यालय के निदेशक, माटेओ बूनी ने

सोमवार को एक लिखित बयान में कहा कि

सुजन के वारण फ्रांसिस को सांस लेने मे कुछ

दिक्कते हो रही है। फ्रांसिस का अगले महीने

भारतीय मूल के पूर्व सांसद

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की संसद में २०१९ में

पहले भारतीय मूल के सांसद के रूप में

निर्वाचित हुए दवे शर्मा न्यू साउथ वेल्स

लिबरल सीनेट के चुनाव में जीत गए और

राजनीति में लौट रहे हैं। शर्मा (४७) पर्व

विदेश मंत्री मैरिस पायने की जगह लेंगे

जिनवी सीनेट से सेवानिवृत्ति हो चुवी है।

ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटिड प्रेस ने यह

जानकारी दी। शर्मा ने न्यू साउथ वेल्स केपूर्व

मंत्री एंड्रयू वान्स्टेस वो हराया है। इससे

पहले वह २०२२ तक सिडनी की वेटवर्थ सीट

से सांसद थे लेकिन उस साल चुनाव हार गए

थे। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडक्सिटंग क्वॅर्पोरेशन की

खबर के अनुसार, उन्हें रविवार को अंतिम

मतदान में २५१ मत मिले और कांस्टेटस को

लोगों पर गोलीबारी मामले

वर्मोण्ट (अमेरिका)। अमेरिकी पुलिस ने

वर्मोण्ट विश्वविद्यालय के परिसर के समीप

थैक्सगिविग समारोह में शनिवार शाम को

शामिल हुए फलस्तीनी मूल के तीन युवाओ

पर गोली चलाने वाले एक संदिग्ध आरोपी को

गिरपतार कर लिया है। बर्लिगटन पुलिस

विभाग ने एक बयान में बताया कि ब्यरो

ऑफ अल्वोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड

एक्सप्लोसिव्स के कर्मियों ने बर्लिगटन मे

गोलाबारी वाले इलाके में छापेमारी के दौरान

रविवार को तीन बजकर 38 मिनट पर 48-

वर्षीय जेसन जे. ईटोन को गिरफ्तार किया।

उत्तरपश्चिमी पाकिस्तान में

व्यक्ति की मौत, २१ घायल

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के व्यक्तिले

वो निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती

बम विस्प्वेट में कम से कम एक व्यक्ति वी

मौत हो गई और 13 सुरक्षाव्वर्मियों सहित

THE PIONEER (1

२१ लोग घायल हो गए।

आत्मघाती हमले में एक

में एक संदिग्ध गिरफ्तार

फ्लस्तीनी मूल केतीन

२०६ मत हासिल हुए।

दवे शर्मा ऑस्ट्रेलिया की

८७वां जन्मदिन है।

सीनेट में पहुंचे

दी जा रही हैं : वेटिकन



लंदन स्थित जोडियाक मैरीटाइम इजराइली अखपित ईयाल ओफर के जोडियाक समृह का हिस्सा है।यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हमले के लिए ईरान समर्थित हृती विद्रोहियों को लेकिन देश की राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोहियों ने पोत को रोके जाने या मिसाइल हमले की घटनाओं की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। जोडियाक मैरिटाइम , अमेरिकी एवं ब्रितानी सेनाओं और निजी खुफिया फर्म एम्ब्रे

ब्रिटेन : महिला के बोलने

मजाक बनाने के आरोप में

के भारतीय लहजे क

खाडी में लाइबेरिया के झंडे वाले सेंटल पार्क पोत पर कब्जा कर लिया थ। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने सोमवार सबह एक बयान में कहा कि अर्ले बर्क श्रेणी के विध्वंसक पोत यएसएस मेसन सहित उसके बलों और सहयोगियों ने हमलावरों की कार्वाई का जवाब दिया और उनसे

टैंकर को छोडने को कहा। सेंट्रल

कमांड ने कहा. पांच हथियारबंद

हमलावर इसके बाद पोत से उतरे

और उन्होंने अपनी छोटी नौका के

भारत और अमेरिका के बीच असैन्य

परमाण समझौता होने के 18 साल से

अधिक समय बाद भी बडी द्विपक्षीय

साझेदारी के साथ-साथ इसकी पूरी

क्षमता और वादे अभी तक मूर्त रूप

नहीं ले सके हैं। एक शीर्ष अमेरिकी

विशेषज्ञ ने यह दावा किया है। यटा

चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और

प्रतिष्ठित कार्नेगी एनडाउमेंट फॉर

इंटरनेशन पीस के वरिष्ठ शोधवेत्ता

एशले जे टेलिस ने कहा कि भारत ने

अभी तक उन बाधाओं को दूर नहीं

किया है जो अमेरिका से परमाणु

रिएक्टरों की खरीद को रोकती हैं, वहीं

अमेरिका दुरदर्शिता के साथ नीति पर

खरा नहीं उतर सका है। उन्हों ने

कार्नेगी एनडाउमेंट फॉर इंटरनेशन पीस

के सोमवार को प्रकाशित मुखपत्र में

लिखा कि 2005 में हुए असैन्य

परमाण समझौते को अंततः फलीभूत

करने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो

बाइडन की महत्वाकांक्षा भारत को

अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की बिक्री

के साथ समाप्त नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इसके बजाय, इसका

लंबे समय से चली आ रहीं अमेरिकी

नीतियों में संशोधन होने तक विस्तार

हमास ने चार वर्षीय एबिगेल एडन को रिहा कियाः बाइडन

नानटुकेट (अमेरिका)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमास द्वारा बंधक बनाई गई चार वर्षीय अमेरिकी बच्ची एबिगेल एडन को इजराइल-हमास युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किए जाने की रविवार को पुष्टि की। बाइडन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, शक है कि वह घर लौट आई है। कश. मै भी उसे गोद में उठाने के लिए वहां होता। एबिगेल के पास इजराइल और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। बाइडन ने कहा कि वह इजराइल में सुरक्षित है। एबिगेल इजराइल-हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा की जाने वाली पहली अमेरिकी नागिरक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने बाद में बताया कि राष्ट्रपति ने अमेरिका एवं इजराइल में रह रहे बच्ची के परिवार के सदस्यों से फोन पर बात की।

जरिए भागने का प्रयास किया लेकिन मेसन ने हमलावरों का पीछा किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अंतत: आत्मसमर्पण करना ईयू, अरब देशों की स्पेन में बैठक , फ्लस्तीनी राजनयिक ने गाजा में शांति के लिए अपील वी

बार्सिलोना। शीर्ष फलस्तीनी राजनयिक ने यरोपीय संघ के सदस्यों और मध्य पूर्वी और उत्तरी अप्रीक्वी देशों की एकबैठक में गाजा में इजराइल-हमास संघर्ष विराम को बढ़ाने पर जोर दिए जाने का अनुरोध किया। रियाद अल-मल्की ने बार्सिलोना, खोन में राजनयिको की बैठक के दौरान संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्पेनिश में कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि आवश्यक दबाव कैसे लागु किया जाए ताकि इजराइली सरकार निर्दोष लोगों को मारना जारी न रखे। इजराइल मूमध्यसागरीय देशों के संघ द्वारा आयोजित और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल और नॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग नहीं ले रहा है। बैठक में 42 प्रतिनिधिमंडलों में से कई का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री कर रहे है। पिछले वर्षों में यह आयोजन काफी हद तक युरोपीय संघ और अरब दुनिया के बीच सहयोग का एक मंच बन गया है। सोमवार वी बैठक को इसकी स्थापना के 15 साल बाद संघ की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले और गाजा पट्टी में इजराइल की क्वर्वाई के बाद से इस यह मुद्दा इसके केंद्र में है।बोरेल ने कहा कि उन्हें इजराइल की अनुपरिथति पर खेद है।

पडा। सेंट्रल कमांड ने हमलावरों सेंट्रल पार्क ने खतरे में होने की की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उसने कहा कि सोमवार तडके हती के नियंत्रण वाले यमन से एक मिसाइल दागी गई। यूएस सेंट्रल कमांड के एक बयान में कहा गया है कि मिसाइल पोतों से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) दूर समुद्र में गिरी। सेंट्रल कमांड ने कहा, एमावी

सूचना दी थी, जिसके बाद यूएसएस मेसन उसके बचाव की कार्वाई कर रहा था, तभी मिसाइल दागी गई। उसने कहा कि इस घटना में किसी भी पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही कोई हताहत हुआ है।लंदन स्थित जोडियाक मैरीटाइम इजराइली अरबपति ईयाल ओफर के जोडियाक समूह का हिस्सा है।

करना चाहिए जो भारत के परमाण्

हथियार कार्यक्रम के अस्तित्व को

गहन तकनीकी सहयोग के लिए

एक ऐसी बाधा बना रही हैं जिनसे

पार पाना मश्किल हो रहा है।

टेलिस ने कहा, जहां तक भारत की

बात है तो वह परमाणु करार के

लागू होने के दौरान की गईं लिखित

प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उन

अवरोधों को लंबे समय से दूर नहीं

कर पाया है जो अमेरिका से

परमाणु रिएक्टरों की उसकी खरीद

को रोक रहे हैं। जहां तक अमेरिका

की बात है तो एक अलग ही तरह

की चुनौती है कि वह दूरदर्शिता के

साथ नीतियों पर खरा नहीं उतर

रहा। उन्होंने कहा कि बाइडन की

सितंबर में हुई भारत यात्रा के बाद

संयुक्त घोषणापत्र में कहा गया

कि दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा

में भारत-अमेरिका सहयोग को

सुविधाजनक बनाने के अवसरों

का विस्तार करने के लिए दोनों

पक्षों की संबंधित संस्थाओं के बीच

गहन विचार-विमर्श का स्वागत किया, जिसमें सहयोगात्मक रूप से

अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर

रिएक्टर की प्रौद्योगिकियों का विकास

व्विवक न्यज

अपना अनाज दुनिया तक पहुंचाने क नया तरीक अपना रहा हे यक्रेन

कीव। मध्य युक्रेन के एक भंडारण सुविधा केंद्र से अनाज को कला सागर रिथत बंदरगाहों की ओर भेजने की क्वायद शुरू कर दी गई है।अनाज से भरे क्वर्गों को एक नए शिपिग गलियारे के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों तकपहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध के दौरान खाद्यान्न के निर्यात की अनुमति देने संबंधी संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले समझौते से रूस के हटने के बाद से निर्यात रक्त था खाद्यान्न सुविधा केंद्र के महानिदेशक रोमन आंद्रेड़किव ने कहा, यह कठिन था, लेकिन हम कम करते रहे... हमने यह रास्ता निकला है कि हम अपने भागीदारों को आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे करें। सेना द्वारा संरक्षित यूक्रेन के नए गलियारे ने अब उसे गोदाम खाली करने और गतिविधि बढ़ानै की अनुमति दे दी है। रूसी हमले और काला सागर में उतरा रहे विस्पोटक पदार्थों के खतरे के बावजूद बड़ी संख्या में यूक्रेजी जहाज काला सागर रिथत बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों में अनाज, धातु और अन्य सामान लदे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में किए गए समझौते से हटने के बाद, रूस ने युक्रेन केकाला सागर बंदरगाहो और अनाज के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों वो एक वर्ष तक खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज नष्ट हो गया है। रुस के अधिकरियों ने गलियारे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मॉस्कों ने इस गर्मी में चेतावनी दी थी कि यूक्रेन के व्यला सागर बंदरगाहों वी ओर जाने वाले जहाजों वो हथियार ले जाते हुए माना जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लोदिमीर ज़ेलेस्की ने कहा कि सहयोगी देश वाला सागर में उनके वाणिन्यिक जहाजो वी सुरक्षा में मदद के लिए अपने जहाज उपलब्ध कराने पर सहमत हुए थे, लेकिन वहां अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता थी।

थाईलैंड और श्रीलंका के अलावा अब मलेशिया भी देगा भारतीयों को वीजा-मक्त प्रवेश

कआलालंपर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक दिसंबर से भारतीय एवं चीनी नागरिकों को 30 दिन का वीजा मुक्त प्रवेश दिए जाने की घोषणा की है। थाईलैंड और श्रीलंक ने भी पर्यटन को बढावा देने के लिए हालिया सप्ताह में इसी प्रकर की घोषणाएं व्वी थी। इब्राहिम ने कहा कि वर्तमान मे खाड़ी देशो और तुर्किए एवं जॉर्डन सहित अन्य पश्चिम एशियाई देशों को यह सुविधा प्राप्त है तथा अब यह भारत और चीन को भी दी जाएगी। देश वी आधिकरिक समाचार एजेसी बरनामा के अनुसार, इब्राहिम ने साथ ही कहा कि वीजा छूट के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच की जाएगी। इब्राहिम देश के वित्त मंत्री थी है। प्रधानमंत्री ने कहा, मलेशिया आने वाले सभी पर्यटके और आगंतुके की प्रारंभिक जांच की जाएगी। सुरक्षा एक अलग मामला है। यदि किसी व्यक्ति क आपराधिक रिकॉर्ड है या किसी से आतंकवाद का खतरा है तो उसे प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सुरक्षा बलो और आव्रजन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस समय आठ आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रो का संगठन) देशों को सामाजिक यात्राओं, पर्यटन और व्यापार के उद्देश्य से मलेशिया में 30-दिवसीय वीजा-मुक्त प्रवेश दिया जा रहा है।

रूस ने मेटा के प्रवक्ता को वांछित सूची में शामिल किया

मॉस्त्वे। रूस ने अमेरिव्वे प्रोद्योगिव्वे कंपनी मेटा के प्रववता को वांछित सूची में शामिल किया है। रुस के खा मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक ऑनलाइन डेटाबेस से यह जानकरी सामने आई।मेटा, सोशल मीडिया मंच फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी है।रुस की सरकारी समाचार एजेंसी तास और स्वतंत्र समाचार कंपनी मीडियाजोना ने सबसे पहले इसक खलासा करते हुए बताया कि मेटा संचार निदेशक एंडी स्टोन को रविवार को वांछित सूची में शामिल किया गया। रुसी अधिकरियों द्वारा अक्टूबर में मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के कुछ सप्ताह बाद यह कदम उठाया गया।हालांकि, रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों में जांच व्य विवरण या स्टोन केखिलाफ आरोपों व्यी जानवारी साझा नहीं व्वी गई। मेटा व्वी तरफ से भी इस मामले पर अभी तक व्वोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।रूस व्वी स्वतंत्र समाचार वेबसाइट मीडियाजोना के मुताबिक, स्टोन को फरवरी २०२२ मे वांछित सूची में शामिल किया गया था, लेकिन उस समय अधिक्वरियो ने इससे संबंधित कोई बयान नहीं दिया तथा इस सप्ताह तक इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट मीडिया मे नही आई।इस साल मार्च मे रूस दी संघीय जांच समिति ने मेटा मे एक आपराधिक जांच शुरू वी थी। इसमे आरोप लगाया गया था कि २४ फरवरी २०२२ को यूक्रेन पर मॉस्के के हमले के बाद कंपनी क कार्वाई रुसियों के खिलाफ हिसा भड़काने जैसी थी।रूस के सैनिकों के यूक्रेन जाने के बाद स्टोन ने मेटा की घृणा भाषण नीति मे अस्थाई बदलाव की घोषणा की थी। इसी बयान में, स्टोन ने कहा था कि रूसी नागरिको केखिलाफहिसा के आह्वान पर प्रतिबंध रहेगा।मीडियाजोना ने रविवार को दावा किया कि रूस की एक अदालत ने आतंक्वाद को बढ़ावा देने के आरोप में स्टोन के खिलाफ इस महीने वी शुरुआत में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रिपोर्ट में जानकरी के

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार पूरी तरह प्रभाव में नही : अमेरिकी विशेषज्ञ

भाषा। वाशिंगटन

पलिसकर्मी दोषी करार लंदन। उत्तरी इंग्लैंड के एक पुलिस अधिकारी को एक महिला के बोलने के भारतीय लहजे का मजाक बनाने के मामले में अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण ने दुर्व्यवहार का दोषी करार दिया है। महिला ने घृणा अपराध की सूचना देने के लिए वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस कॉल सेंटर में फोन किया था।पैट्रिक हैरिसन को दुर्व्यवहार के मामले में पिछले महीने सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया और न्यायाधिकरण ने कहा कि अगर आरोपी ने पुलिस कांस्टेबल के रूप में वेस्ट यॉर्कशायर पलिस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता।घटना पिछले साल नवंबर की है, जब महिला ने अपने बोलने के लहजे का कांस्टेबल द्वारा मजाक बनाए जाने पर पुलिस को फोन किया। महिला का नाम केवल एसए बताया गया।न्यायाधिकरण द्वारा सनाए गए फैसले के मुताबिक, 29 नवंबर 2022 को पलिस कॉल सेंटर में कांस्टेबल हैरीसन ड्यूटी पर था। उस वक्त हैरीसन ने एसए को फोन किया, जिसने नफरत की वजह से हुए अपराध की सूचना देने के लिए पुलिस को फोन



भारत दुनिया के लिए जो मायने रखता है, वह बताने का प्रयास कियाः निवर्तमान महावाणिज्यद्त रणधीर

न्यूयॉर्क। अमेरिक के न्यूयॉर्क में, भारत के निवर्तमान महावाणिज्यदूत रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने दुनिया वो यह बताने का प्रयास किया है कि भारत आज दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। भारतीय अमेरिवी समुदाय केसदस्यों ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों वो बढ़ावा देने में जायसवाल केप्रयासों वी सराहना वी और उनकेलिए विदाई समारोह वा आयोजन किया। भारतीय समुदाय के कई संगठन जायसवाल के सम्मान में न्यूयॉर्क और आस पास विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। जायसवाल जल्द ही दिल्ली केलिए खाना होंगे और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रववता वी अपनी नई भूमिका निभाएंगे। जायसवाल ने लॉन्ग आईलैंड में समुदाय के सदस्यों हरीश ठक्कर और अजय पटेल द्वारा रविवार को आयोजित विदाई समारोह मे कहा कि महावाणिज्य दूत के तौर पर उन्होंने दुनिया को यही बताने का प्रयास किया कि भारत आज दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। यह ऐसा देश है जो प्रगति कर रहा है, जो चांद पर पहुंच गया है। यह देश उन प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है ।

चीन ने म्यांमा में संघर्ष विराम क आह्वान किया लेकिन सीमा पर चीनी सैन्य अभ्यास रहेंगे जारी

बीजिंग। चीन के साथ लगती म्यांमा की सीमा के पास जातीय लडाकों के गठबंधन द्वारा पिछले महीने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेने के बीच बीजिंग ने वहां संघर्ष विराम का आह्वान किया है। चीनी सेना के समाचार पत्र पीएलए डेली ने रविवार को एक खबर में यह भी कहा कि चीन अपनी ओर की सीमा पर गोलीबारी का अभ्यास जारी रखेगा जिसका उद्देश्य सैन्य इकाइयों की गतिशीलता, सीमा नियंत्रण क्षमताओं और मारक क्षमता का परीक्षण करना है ताकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। म्यांमा विशेष रूप से निर्मित वस्तुओं के आयात और किष उत्पादों के निर्यात के लिए चीन के साथ व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है। म्यांमा के सीमा क्षेत्र में अशांति चीन के लिए



बावजद चीन ने म्यांमा में उन सैन्य नेताओं का समर्थन किया जिन्होंने 2021 में एक निर्वाचित सरकार से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में सत्ता छीन ली थी।चीन और म्यांमा की सीमा पर होने वाले संघर्षों के अलावा मादक पदार्थों एवं लोगों की तस्करी की घटनाएं भी समस्या बनी हुई हैं।

तिथि : 27-11-2023

स्थान : हरियाणा

फांसीसी शिक्षक का सिर काटने में कथित भूमिका के लिए ६ नाबालिगो पर चलेगा मुकदमा

पेरिस। अपनी कक्षा में इस्लाम के पैगंबर के

स्रोत का जिक्र नहीं किया गया।

व्यंग्य चित्र दिखाने वाले एक शिक्षक का सिर कलम करने में कथित भमिका के लिए छह नाबालिगों पर सोमवार व्ये पेरिस में मुकदमा वलेगा। इस हत्या के करण अधिकरियों को फ्रांस के अभिव्यवित और धर्मनिरपेक्षता के पोषित अधिकारो र्का फिर से पुष्टि करनी पड़ी। इतिहास और भूगोल के शिक्षक सैमुअल पैटी व्वी १६ अक्टूबर २०२० व्हो उत्तर पश्चिमी पेरिस उपनगर में उनकेस्कल के पास वेचेन मूल केएक १८ वर्षीय लड़के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह लड़का कट्टरपंथी बन गया था जिसके बाद हमलावर को पुलिस ने मार गिराया।कक्षा में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के महे पर एक बहस के दौरान पैटी ने व्यंग्यात्मक समाचार पत्र चार्ली आब्दो द्वारा प्रकशित वैरिकेचर (व्यंग्य चित्र) दिखाए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम का खुलासा किया गया।नाबालिगों के संबंध में फ्रांसीसी कानून के अनुसार पेरिस किशोर अदालत में सभी सुनवाई मीडिया वी गैर मौजूदगी में आयोजित वी जानी है।जिन पर मक्टमा चलना है।

भी पति में हुए कि निवास के पति हैं है पति वह स्वावित हैं वह पति हैं है पति वह स्वावित है तो है पति व्यक्ति को अन्य स्वावित है तो कृषमा अध्यक्ति है मा किसी भी प्रकार का विवाद है तो कृषमा अध्यक्ति है मा किसी भी प्रकार का विवाद है तो कृषमा अध्यक्ति है को कृषमा अध्यक्ति है से स्वति है से से स्वति है से ा ७६ में वर्तमान करें। श्रीमी नमून नता, अधिक स्मान स्

new Deint. Insi segal ownership was established through two Relinquishment Deed namely Relinquishment Deed namely Relinquishment Deed dated 27:02.2012 vide doc. No. 22456 executed by Smt. Daljeet Kaur 2. Smt. Manmohan Kaur 3. Smt. Swam Kaur 4. S. Kanwaipreet Singh 5. S. Jagpreet Singh 6. Smt. Suminder Kaurand Relinquishment Deed dated 17:09.2012 vide Doc. No. 22423, executed bySht. Gurbachan Singh, Sht. Charanjeet Singh intends to transferthe ownership by way of Sale Deed of the aforementioned property to Aarti Anand, Subsequently, Aarti Anandis in the process of mortgaging the said property with Bajaj Housing Finance Ltd. (Our Client), Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the considered binding with respect to the said property or the interests of our client. If anypow wishes to raise an objection, please do so within

इमरान को भ्रष्टाचार के मामले में १४ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा



भाषा । इस्लामाबाद

पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और देश की भ्रष्यचार रोधी संस्थान की इस गुज़ारिश को खारिज कर दिया कि उसे दी गई खान की रिमांड को बढाया जाए। द एक्सप्रेस टब्यिन अखबार ने खबर दी है, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के

न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। इसी जेल में खान बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 71 वर्षीय प्रमख विभिन्न मामलों में 26 सितंबर से रावलिपंडी की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। उच्च सुरक्षा वाली जेल में सनवाई के दौरान मख्य आरोपी खान और उनकी 49 वर्षीय पत्नी बशरा बीबी मौजूद थी। खबर में कहा गया है कि खान की बहनें अलीमा खानम और नोरीन खानम भी सुनवाई के दौरान मौजूद थीं। न्यायाधीश बशीर ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के इस आग्रह को खारिज कर दिया कि अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में उसे दी गई खान की रिमांड को बढ़ाया जाए। खबर के मुताबिक, न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनएबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन अखबार को बताया कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था की टीम ने रविवार को अडियाला जेल में पीटीआई प्रमुख से दो घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। मामले में खान की भूमिका की जांच के लिए जवाबदेही ब्यूरो के अधिकारी 15 नवंबर से अडियाला जेल का दौरा कर रहे हैं।

उत्तरपश्चिमी पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में दो लोगों की मीत, १० अन्य घायल पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर

पख्तनख्वा प्रांत में सरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादी संगठन के एक गुट द्वारा किए गए आत्मघाती बम हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।सेना की मीडिया शाखा ने सोमवार को बताया कि रविवार को बन्नू छावनी में आजाद मंडी के पास सुरक्षा बलों के काफिले को विस्फोटकों से भरे एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। यह काफिला उत्तरी वजीरिस्तान जिले से बन्न जा रहा था।इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में बताया कि इस आत्मघाती हमले में दो आम नागरिकों की मौत हो गई जबकि तीन सुरक्षा कर्मी एवं सात आम नागरिक घायल हो गए आईएसपीआर के अनुसार, घायलों को बन्नू के कम्बाइंड मिलिट्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लगातार परेशानी का कारण है। इसके


आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया

लंदन। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉना के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लिंच ने लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछाडकर यह पुरस्कार अपने नाम किया। लिंच (46) ने प्रॉफेट सॉन्ग में निरंकुशता की चपेट वाले आयरलैंड की तस्वीर पेश की है। यह उपन्यास एक परिवार की कहानी बताता है जो एक ऐसी भयानक नई दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं, जिनका वह आदी है। लिंच ने 50,000 पाउंड इनामी गशि वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के बाद कहा, मैं आधुनिक अराजकता को देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने पश्चिमी लोकतंत्रों में अशांति को देखने की कोशिश की।

यादों को सहेज कर रखते हैं जीवाणु और पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं : अध्ययन

की रचना कर सकते हैं कि कब ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं, जो लोगों में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध जैसे खतरनाक संक्रमण पैदा कर सकती हैं। इस तरह के सूक्ष्मजीव एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं।जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित निष्कर्षों में बैक्टीरियाल संक्रमण से लंडने व उन्हें रोकने और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की समस्या को हल करने की क्षमता

बैक्टीरिया यानि जीवाणु ऐसी यादों



दिखाई देती है।शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज एक ऐसे सामान्य रासायनिक तत्व से जुड़ी हुई है, जिसका उपयोग जीवाण कोशिकाएं यादों को बनाने और भावी पीढियों तक पहुंचाने के लिए कर सकती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ई. कोली का जीवाणु अलग-अलग व्यवहारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आयरन के स्तर को एक तरीके के रूप में उपयोग करते हैं, जो

कुछ विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना होने पर सक्रिय हो जाते हैं।अध्ययन के मख्य शोधकर्ता सौविक भट्टाचार्य ने कहा, जीवाणु का दिमाग नहीं होता लेकिन वे अपने अनुकूल माहौल से जानकारी इकठ्ठा कर सकते हैं और अगर वे बार-बार उस माहौल के संपर्क में आते रहेंगे तो वे जानकारियां संग्रहित कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए बाद में उस तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। शोधकर्ताओं ने चिन्हित किया कि इन सबकी वजह आयरन ही है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्वों में से एक है। हर बैक्टीरिया में आयरन का स्तर अलग-अलग होता है। उन्होंने पाया कि जिन जीवाणु में आयरन का स्तर निम्न था उनमें समूह में रहने की प्रवृति दूसरे जीवाणुओं के मुकाबले

सार टेलीवेंचर लिमिटेड (पूर्वतः सार टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड) सीआईएन : य45202एचआर2019पीएलसी080514 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 346 ए, द्वितीय तल, उद्योग विहार, फेज-4, गुरूग्राम-122016, हरियाणा

सम्पर्कः +91-8587050050, ई-मेलः info@sarteleventure.com

नमाप्त अर्द्ध—वर्ष हेतु समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों

वर्ष समाप्त 6 माह समाप्त विवरण 30-09-2023 30-09-2022 31-03-2023 31-03-2023 31-03-2022 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित

	1		A 100 CO. (100 CO. (100 CO.)	The state of the s		
1	परिचालन से कुल आय	3581.49	320.91	2619.97	3251.63	475.34
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	419.03	20.03	376.26	427.32	2.73
3	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात#)	419.03	20.03	376.26	427.32	2.73
4	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात#)	405.88	13.98	343.34	388.36	3.71
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	405.88	13.98	343.34	388.36	3.71
6	इक्विटी शेयर पूंजी	210	4.18	65.29	65.29	4.18
7	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	3344.48	11.89	1.11	1.11	11.89
8	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक) (वार्षिककृत नहीं)					
	1. मूल	5.09	6.7	53.21	91.08	1.78
	2. तनुकृत	5.09	6.7	53.21	91.08	1.78

. उपरोक्त विवरण सेनी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए अर्द-वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। अर्द-वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइत www.nseindia.com पर उपलब्ध है। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.sarteleventure.com पर भी उपलब्ध हैं। उपरोक्त परिणामों का सम्यक् पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी 27-11-2023 को आयोजित बैठक

> सार टेलीवेंचर लिमिटे (पूर्वतः सार टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) (राहुल सचदेव प्रबंध निदेशक

PD(205)C

एक अध्ययन में यह पाया गया है।अमेरिका के ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने कहा CHANGE OF NAME कि ए रणनीतियां जीवाणु को एक ऐसी समूह की रचना में भी मदद करती हैं, जहां लाखों की तादाद में R/o Village

I, Mohit Kumar S/o Shri Arun Chauhan Mubarakpur Post Surajpur, Greater Noida, Distt.:-Gautam Buddhnagar U.P.-201306, have declare that Mohit Chauhan and Mohit Kumar are one and same person. My correct name is Mohit Kumar.